



थाना धामपुर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में 02 बदमाश अवैध शस्त्र व फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी धामपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना धामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2021 को चैकिंग के दौरान शेरकोट रोड़ पर पौधशाला से जंगल को जाने वाले रास्ते पर 01 सदिग्ध बाईक को रोकने का इशारा किया तो बाईक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये । पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये घेराबन्दी कर अभिगण 1.शुभम कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह व 2. शरद सैनी पुत्र रामलाल सैनी निवासी गण मौहल्ला अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचे देशी 315 बोर (जिनकी नाल में 02 खोखा कारतूस), 04 जिन्दा कारतूस, 01 फर्जी नंबर प्लेट UP20BC0748 लगी मोटरसाईकिल होण्डा साईन सहित गिरफ्तार किया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 528/21 धारा 420/465/482/307 भादवि बनाम 1.शुभम कुमार व 2.शरद सैनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 529/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 530/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभिगण का नाम व पता:-

1. शुभम कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी मोहल्ला अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट जिला बिजनौर ।
2. शरद सैनी पुत्र रामलाल सैनी निवासी मोहल्ला अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट जिला बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण: -

1. 02 तमंचे देशी 315 बोर (जिनकी नाल में 02 खोखा कारतूस)
2. 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 मोटर साईकिल होण्डा साईन मय फर्जी नम्बर प्लेट UP20BC0748

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह 2.उ0नि0 श्री चन्द्रवीर सिंह 3.का0 315 सहदेव कुमार 4.का0 1580 ललित कुमार 5.का0 1551 शकील अहमद 6.रि0का0 2203 रजत कुमार 7.रि0का0 2226 लखवीर उज्ज्वल



थाना शेरकोट:- आज दिनांक 03/11/2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त फरमान पुत्र मुशाहिद निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को मुकदमा अपराध संख्या 248/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नांगल पुलिस द्वारा ग्राम दिनौडी में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

